



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2531]

No. 2531]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2980(अ).—जबकि मैसर्स अदानी पावर लिमिटेड, आवेदक, जिनका पंजीकृत कार्यालय अदानी हाउस, मीठाखाली सर्किल के निकट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009, गुजरात में है, ने अपनी समर्पित मोहिंदरगढ़ (एचवीडीसी)-भिवानी (पीजीसीआईएल) 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु आवेदन किया है।

और जबकि 31-7-2009 को, पत्र सं. 11/4/2007 पीजी के माध्यम से, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने हरियाणा में निम्नलिखित मार्ग से गुजरने वाली उनकी समर्पित मोहिंदरगढ़ (एचवीडीसी) भिवानी (पीजीसीआईएल) 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन की संस्थापना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत मैसर्स अदानी पावर लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया था :

जिला : भिवानी

गांव/तहसील का नाम

नीमड़ीवाली, प्रहलादगढ़, रूपगढ़, झेरवाल, नन्दागांव, कटलाना, दोखी, नरसिंहवास, रासीवास, छापर, इख्तियारपुर, मनकावास, पडवान, बिरही खुर्द, बिरहीकलां, बरसाना, खेरीबतार, तिवाला, माइहारा, काहेना, असावन, झोझुकलां, कलाई, बलाई, जावा, चांगरोड, बड़वाना, बलरोड, पलरी।

जिला मोहिंदरगढ़

गांव/तहसील का नाम

सिवाना, नौताना, पोटा, बसाई, सिलांग, तलवाना, खेड़ी, बवाना अफगानन, ढांडा बास, अधियार।

और जबकि आवेदक ने अब सरकार द्वारा स्थापित या देख-रेख अथवा इस प्रकार स्थापित अथवा देख-रेख किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु टेलीग्राफ लाइनों और पोस्टों को लगाने के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत सभी शक्तियां, जो कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है, उसे प्रदान करने का अनुरोध किया है।

इसलिए अब सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों हेतु उपर्युक्त उल्लिखित संस्थापना के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन सरकार द्वारा स्थापित या देख-रेख या इस प्रकार स्थापित या देख-रेख किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइनों और पोस्ट लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास जो शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों को आवेदक को प्रदान करती हैं, अर्थात् :—

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है;
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, नेशनल रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी;
- (iii) आवेदक को पारेषण, ओ एंड एम, खुली पहुँच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/कोडों का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक को अन्तर्राज्यीय समर्पित मोहिंदरगढ़ (एचवीडीसी)-भिवानी (पीजीसीआईएल) 400 केवी डी/सी पारेषण लाइनों को बिछाने का दायित्व सौंपा गया है। इस लाइन का ब्यौरा 24 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

- (v) आवेदक संबंधित राज्यों के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (vi) यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2007 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली की आवश्यकता के अनुसार आवेदक द्वारा अनुपालन के अधीन है।

[फा. सं. 11/20/2010-पीजी]

अरुण कुमार, निदेशक

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 13th December, 2010

S.O. 2980(E).—Whereas M/s. Adani Power Limited, the applicant, with its Registered Office at Adani House, Near Mithakhali Circle, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat, has applied for approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for its dedicated Mohindergarh (HVDC) - Bhiwani (PGCIL) 400 kV D/C Transmission line.

And whereas on 31-7-2009, *vide* letter No. 11/4/2007-PG, the Government of India, Ministry of Power, had granted to M/s. Adani Power Limited, approval under Section 68 of the Electricity Act, 2003 for installation of its dedicated Mohindergarh (HVDC) - Bhiwani (PGCIL) 400 kV D/C Transmission line, passing through the following route in Haryana :

District : Bhiwani

Name of the Villages/Tehsil

Nimriwali, Pahladgarh, Rupgarh, Jherwal, Nandgaon, Kitlana, Dokhi, Narsinghwas, Rasiwas, Chhapar, Ikhtiyarpur, Mankavas, Pandwan, Birhi Khurd, Birhikalan, Barsana, Kheribatar, Tiwala, Maihara, Kahena, Asawan, Jhojhukalan, Kalali, Balali, Jawa, Changroad, Badhawana, Balrod, Palri.

District : Mohindergarh

Name of the Villages/Tehsil

Sivana, Nautana, Pota, Basai, Selang, Talwana, Kheri, Bawana Afghanan, Dhanada Bas, Aghiyar.

And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained.

Now, therefore, after careful consideration, Government of India, Ministry of Power, confers, under Section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the Applicant which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above-mentioned inter-state transmission lines for inter-state transmission of electricity, namely :—

- (i) the approval is granted for 25 years;
- (ii) the Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways, etc. before erection of proposed lines;
- (iii) the Applicant shall have to follow regulations/codes of the appropriate commission regarding transmission, O&M, open access, etc;
- (iv) the Applicant has been entrusted with the responsibility of laying the inter-state dedicated Mohindergarh (HVDC) -Bhiwani (PGCIL) 400 kV D/C transmission line. The details of the line are published in the Gazette of India of October 24, 2009.
- (v) the Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States;
- (vi) the approval is subject to compliance by the Applicant to the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[F.No. 11/20/2010-PG]

ARUN KUMAR, Director